

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली
हौज खास, नई दिल्ली -110016
(औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई)
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI
Hauz Khas, New Delhi-110016
(Industrial Research & Development Unit)

No. IITD/IRD/RP04291G/ 60/03

Dated:21/07/2022

Advertisement No.: IITD/IRD/161/2022

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा.

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Title of the Project | Revisiting traditional Indian agricultural practices against climate change vulnerabilities using machine learning techniques (RP04291G) | |
| Funding Agency | Department of Science & Technology (DST) | |
| Name of the Project Investigator | Prof. Vivek Kumar [email id:irdrecruitment3@gmail.com] | |
| Deptt./Centre | Centre for Rural Development & Technology (CRDT) | |
| Duration of the Project | Upto:20/02/2024 | |
| Post (s) | Consolidated Pay-slab | Qualifications |
| Principal Project Scientist (1) | Rs.56,000-60,000-64,000-69,000-74,000-79,000/- p.m. plus HRA @ 27% | Ph.D. in the area of Climate-agriculture interface or 1 st class M.Tech in Civil / Environmental / Agricultural Engineering plus 6 years of research experience in climate-agriculture interface. GATE/ NET is required. Candidates having Ph.D. will be preferred. Published research as the first author in peer-reviewed journals in the concerned area. Working experience with large climate and agricultural datasets, strong statistical modeling skills and ability to work with machine learning techniques. |

The candidates who are interested to apply for the above post should download **Form No. IRD/REC-4** from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. **by e-mail with advertisement No. on the subject line to Prof. Vivek Kumar at email id: irdrecruitment3@gmail.com**

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) **alongwith the online interview details. Only short-listed candidates will be informed for online interview.**

In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact **Prof. Vivek Kumar** at **email id: irdrecruitment3@gmail.com** 5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है. एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा। **The last date for submitting the completed applications by e-mail is 04/08/2022 by 5.00 p.m.**


Assistant Registrar (IRD)

Distribution

- Head of the Deptt./Centres/Units : It is requested that the contents of the Above Advt. be brought to the notice of the staff working in your Deptt./Centre/Unit
- Webmaster, IRD : To put advertisement at IITD website.
- Notice Boards
- Advertisement file
- Prof. Vivek Kumar, PI, Centre for Rural Development & Technology (CRDT)
- Copy to Chairperson, DRC/CRC
- Dr. Harshita Bhatnagar, RD Coordinator, (R&D) Wing